

## प्रेस नोट दिनांक 06-01-2023

थाना कुतुबशेर सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दर्जन भर आपराधिक घटनाओ मे लिप्त रहे अपराधी को 01 अदद तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में तथा क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 06.01.2023 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आपराधिक घटनाओ मे लिप्त रहे अभियुक्त दानिश उर्फ पोंचा पुत्र कल्लू निवासी मौ0 ढोलीखाल थाना कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त दानिश उर्फ पोंचा उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया । अभियुक्त दानिश उर्फ पोंचा उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 04/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है ।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त.....

दानिश उर्फ पोंचा पुत्र कल्लू निवासी मौ0 ढोलीखाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण.....

01अदद तमन्चा 315 बोर व 01जिन्दा कारतूस 315 बोर

### गिरफ्तार करने वाली टीम.....

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 बचन सिंह अत्री थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 745 दीपक मावी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. का0 1773 राहुल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

## प्रेस नोट दिनांक 06-01-2023

### थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल पर्यवेक्षण में वांछितों की गिरफ्तारी के सम्बंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभाकर कैन्तुरा प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार द्वारा गठित टीम द्वारा दिनांक 06.01.2023 को समय 04.30 बजे माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में एनबीडब्लू वारण्टी वंशज जग्गा पुत्र राजीव जग्गा नि० पन्त विहार थाना सदर बाजार , स०पुर को गिरफ्तार किया गया | वारण्टी के विरुद्ध पूर्व से थाना सदर बाजार पर वाद संख्या 2297/19 धारा 138 NI ACT पंजीकृत है अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम

(1) वंशज जग्गा पुत्र राजीव जग्गा नि० पन्त विहार थाना सदर बाजार , स०पुर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि०श्री सुनील नागर, थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. है०का० 235 विनित थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. एचजी०२०७२ प्रमोद थाना सदर बाजार सहारनपुर

## प्रेस नोट दिनांक 06.01.2023

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से बैंक से चैक प्राप्त करके धोखाधड़ी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 बॉल पेन, इरेजर व रबड बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश/निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम सहारनपुर के पर्यवेक्षण में वाँछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनांक 19.12.2022 को पंजीकृत 321/22 धारा 420/379 भादवि का सफल अनावरण करते हुये आज दिनांक 06.01.23 को 03 अभियुक्तगण 1. रामकुमार पुत्र नोखेलाल निवासी ग्राम नारायणठेर थाना बरखेडा जिला पीलीभीत 2. विकास गौतम पुत्र बाबूराम निवासी बरहा राजीव कालोनी थाना सुनघडी जिला पीलीभीत 3. पवन पुत्र प्रेमचन्द निवासी ग्राम मलकापुर थाना बिलसन्डा जिला पीलीभीत को गिरफ्तार किया। पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि मिलकर अलग-अलग शहरो के बैंको में जाकर बैंक में अपना चैक लगाने आये भोले भाले व्यक्तियों से उनकी डिटेल व हस्ताक्षर करने का तरीका देख लेते है तथा फिर वही व्यक्ति बनकर बैंक वालो को धोखा देकर धोखाधड़ी करके फर्जी तरीके से चैक को प्राप्त कर लेते है तथा उस एकाउन्टपेयी चैक को सम्बन्धित बैंक में ले जाकर कूटरचित कर फर्जी कागजात से बैंक को धोखा देकर कैश करा लेते है। दिनांक 08.12.22 को तीनों ने मिलकर मुकदमा वादी मनोज कुमार के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी काउन्टर स्लिप बनाकर बैंक ऑफ बडौदा, शाखा प्रताप मार्किट, सहारनपुर से मनोज कुमार का 3,87,000 रुपये का एकाउन्टपेयी चैक प्राप्त कर तथा एकाउन्टपेयी चैक को बाल पेन इरेजर रबड की मदद से चैक के ऊपर बनी दो लाईनो को मिटाकर बीयरर चैक मे बदलकर तथा मनोज कुमार का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर दूसरे बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा बेरीबाग सहारनपुर से 3,87,000 हजार रुपये प्राप्त करना स्वीकार किया है। अभियुक्तगणो के विरुद्ध कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगणो का नाम व पता .....

1. रामकुमार पुत्र नोखेलाल निवासी ग्राम नारायणठेर थाना बरखेडा जिला पीलीभीत
2. विकास गौतम पुत्र बाबूराम निवासी बरहा राजीव कालोनी थाना सुनघडी जिला पीलीभीत
3. पवन पुत्र प्रेमचन्द निवासी ग्राम मलकापुर थाना बिलसन्डा जिला पीलीभीत

### बरामदगी

1. एक बाल पेन, इरेजर, रबड

### गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम:

1. उ0नि0 श्री राहुल देशवाल थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. का0 902 राहुल कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. का0 293 ललित कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
4. का0 2034 राहुल मोतला थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर